



Date: 31.07.2023

Corporate Relationship Department, BSE Limited. 25 th Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001	The Manager, Listing department, National Stock Exchange of India Ltd. 'Exchange Plaza', C- 1 Block G, Bandra Kurla complex, Bandra (East) Mumbai – 400051	Corporate Relationship Department, Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. Building A, Unit 205A, 2nd Floor, Piramal Agastya Corporate Park, L.B.S Road, Kurla West, Mumbai – 400070
BSE Scrip Code: 534600	NSE Scrip Code: JTLIND	MSEI Symbol: JTLIND

Sub: Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the First Quarter ended 30th June, 2023.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper clippings of Unaudited Financial Results of the Company for the First Quarter ended 30th June, 2023 published in newspapers - The Financial Express (English) and Jansatta (Hindi).

Kindly take the above information on your record.

Thanking You,

Yours Sincerely,

**For JTL Industries Limited
(Formerly known as JTL Infra Limited)**

**Gurinder Makkar
Company Secretary & Compliance Officer**

Currently under provisions, norms, banks are required to set aside funds to a prescribed percentage of their bad assets on an incurred loss approach, which means they need to provide for losses that have occurred or incurred.

sions towards the ECL impact. Even if the ECL framework comes (into effect) in March 2024, we will have 12-month time to work on that. We are fully geared up to meet the impact of the ECL," Manimekhalai said after

framework or provision. LIC Bank's Executive Director Sandeep Batra said after announcing the Q1FY2024 results.

Although the RBI has not given the timeline for when final guidelines on the ECL

implication, he told reporters after announcing the June monetary policy.

Dass said that the RBI made an assessment on the additional capital requirements under the ECL framework and it is within manageable limits.

the insolvency and bankruptcy Code. The infusion has been done following the lenders of Reliance Capital giving approval for the capital support to improve the solvency margin of the general insurance arm.

score in the corresponding quarter of 2022-23. The company's total income during April-June 2023 stood at ₹6,001 crore against ₹3,604 crore in the year ago quarter, Reliance Capital said.

Insurance Bill unlikely during monsoon session

GEORGE MATHEW
MUMBAI, July 30

THE INSURANCE SECTOR may have to wait further for major reforms in the segment. The Insurance Bill 2023, considered as a pathbreaking Bill, is unlikely to be passed anytime soon as the government is not expected to table it in the ongoing monsoon session of the Parliament which is functioning the last few days, sources said.

This means major reforms proposals like composite license, differential capital, reduction in solvency norms,

issuing captive license, change in investment regulations, one-time registration for intermediaries and allowing insurers to distribute other financial products, earlier announced by the government for seeking public comments, will remain shelved.

The proposed amendments suggest that the minimum paid-up capital can be different and specified by IRDAI considering the size and scale of operations, class or subclass of insurance business and the category or type of insurer. This means the paid-up capital required to

This means major reforms proposals will remain shelved

start general, life or standalone health insurance business at Rs 100 crore and for reinsurance business ₹200 crore will go. There is a proposal that an applicant may apply for a composite license enabling any type of insurance business. This means an insurer can do both life and non-life business with a composite license.

A composite licence will allow insurers to undertake life and health insurance via a single entity. A captive insurance company would have enabled a business group to set up an inhouse wholly-owned subsidiary insurer to provide risk mitigation services for its parent company or related entities. There were earlier indications that the government will table the Insurance Bill 2023 in the monsoon session of the Parliament, a major move that would have deepened the insurance sector.

Earlier, the government

had decided repeal 'The Insurance Act 1938' by passing 'Insurance Bill 2023' in the Parliament. The Department of Financial Services (DFS) had extensively worked on preparing the 'Insurance Bill 2023' in the last few weeks with the hope that it may be tabled in the monsoon session.

The government is likely to discuss a total of 31 bills in the current packed Parliament session, but 'Insurance Bill 2023' for which the government has earlier sought approval of the Union Cabinet, is not included in the list.

'TCS should

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, Jul 30

THE GOVERNMENT SHOULD consider lowering TCS on overseas tour packages and allow foreign cur



JTL INDUSTRIES LIMITED
STEEL PIPES

JTL Industries has a legacy of more than 3 decades and is among India's leading manufacturers of Galvanised and ERW (Black) Steel Pipes, Hollow Sections and Solar Structures.

"Built to last, engineered for strength. Steel pipes for a world of possibilities."

Registered & Corporate Office: S.C.O. 18-19, Sector 28-C, Chandigarh 160002, India
CIN : L27106CH1991PLC011536
Tel: +91 172 4668 000, **E-mail:** contact@jtl.one, **Website:** www.jtl.one

Extract of the Consolidated Unaudited Financial Results for the First Quarter Ended 30th June, 2023

PARTICULARS	CONSOLIDATED (Rs. in lakhs except per share data)			
	Quarter Ended			F.Y. Ended
	30-Jun-23 (Unaudited)	31-Mar-23 (Audited)	30-Jun-22 (UnAudited)	31-Mar-23 (Audited)
Total Income from Operations	50556.97	47309.24	37033.95	155485.63
Profit Before Exceptional Items and Tax	3390.33	5035.26	1587.23	12369.82
Profit Before Tax , after Exceptional Items	3390.33	5035.26	1587.23	12261.61
Net Profit after Tax and exceptional Items	2536.99	3665.12	1207.42	9012.78
Total Comprehensive Income	2536.99	3604.93	1207.42	9313.08
*Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.2 each)	1688.84	1686.84	1210.74	1686.84
Other Equity	-	39024.43	-	39024.43
Earning Per Share (of Rs. 2/- each) (not annualised):				
(a) Basic (Rs.)	3.00	4.35	1.82	10.69
(b) Diluted (Rs.)	2.61	3.77	1.68	9.28
Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the First Quarter ended 30th June, 2023				
Total Income from Operations	50556.97	47157.62	37033.95	155334.01
Profit before Tax	3390.34	5034.76	1587.23	12261.11
Profit after Tax Exceptional and/or Extraordinary items#)	2536.99	3664.75	1207.42	9012.41
Total Comprehensive Income for the period (after tax)	2536.99	3604.56	1207.42	9312.71

Note: The above is an extract of the detailed format of Consolidated/ Standalone Unaudited Quarterly Financial Results with the Stock Exchanges (BSE, NSE & MSEI) under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results are available on the websites of the BSE, NSE & MSEI (Stock Exchanges) i.e. www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.msei.in and on Company's website i.e. www.jtl.one

Place: Chandigarh
Date : 29.07.2023

For JTL Industries Limited (Formerly known as JTL Infra Limited)
Dhruv Singla
Whole Time Director cum CFO | DIN: 02837754

DERBASSI, PUNJAB | MANAGAON, MAHARASHTRA | MANDI GOBINDGARH, PUNJAB | RAIPUR, CHATTISGARH

BAJAJ FINESSE CORPORATE OFFICE
Sikandra, Delhi
Designated
Asse
Undersigned being the Authorised Signatory (Co-Borrower) who is also well as the interest and other charges by Bajaj Finance Limited and as per the terms and conditions of the Security and Enforcement of Security Interest Agreement, notified and issued in the way of this publication notice to the Loan Account No./Name of the Borrower(s)/Guarantor(s) & Branch: AGRA (LAN No. 461LAP09734213 and 461LAP09733876) 1. HANOO KUMAR MOWANI (Co-Borrower) Above At: Plot No-36-36, Sector - B, ICR, Town, Barroni, Abohar, Amra - 20 Schedule of property 2: All that piece 668 & 669, Measuring 138.02 Sq. Mtr North - Property No.27, South - Property No.28, measuring 138.02 Sq. Mtr. This step is being taken for substitute make the payments of outstanding (without prejudice to any other right or remedy) mortgaged property will be in the Assets and Enforcement of Security Interest. The parties named above are also add to the Bajaj Finance Limited has charge. Date: 31/07/2023 Place: Chandigarh

Reliance Capital Ltd. Regd. Office: New Delhi, India. Website: www.reliancecapital.com. Extract of the Consolidated Unaudited Financial Results for the First Quarter Ended 30th June, 2023. [Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

Sl. No.	Description
1	Total Income from Operations
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Exceptional and/or Extraordinary Items)
3	Net Profit/(Loss) for the period (after Exceptional and/or Extraordinary Items)
4	Net Profit/(Loss) for the period (after Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other Equity
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs.2 each)
7	Reserves (excluding Reserve for Contingencies)
8	Securities Premium Account
9	Net Worth
10	Paid-up Debt Capital / Outstanding Debt Capital
11	Outstanding Redeemable Perpetual Debt
12	Debt Equity Ratio
13	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (not annualised)
14	Capital Redemption Reserve
15	Debt Redemption Reserve
16	Debt Service Coverage Ratio
17	Interest Service Coverage Ratio

- Exceptional and/or Extraordinary Items, if applicable.
Note: - The above is an extract of the detailed format of Consolidated/ Standalone Unaudited Quarterly Financial Results with the Stock Exchanges (BSE, NSE & MSEI) under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results are available on the websites of the BSE, NSE & MSEI (Stock Exchanges) i.e. www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.msei.in and on Company's website i.e. www.jtl.one
** Not Annualised for Quarters
* No DRR is required in respect of Debentures/ Bonds, 2014.

Date: July 31, 2023
Place: Mumbai

वि.सं.कांठ (शाहजहाँपुर)

दिनांक: 30.07.2023

मंत्रण सूचना

को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत 2023-24 में 15वां वित्त आयोग, पंचम स्तर का धनराशि से ग्राम पंचायत में सी.सी. निर्माण / मरम्मत, खड़जा निर्माण / मरम्मत, स्ट्रीट लाइट / सोलर लाइट को स्थापना / मरम्मत, ह्यूम पाइप क्रम, बाल पेंटिंग, स्कूल फुटड्र / मरम्मत, स्कूल वाउण्ड्री बाल निर्माण जलयो का कायाकल्प, रंगाई-पुताई, CSC त कराये जाने हैं।

ग ईट, रोड़ा, सीमेंट, मोरंग, बजरी, सरिया, केट व सीनोटाइजर क्रय, पाप टोटी, प्रचार सामग्री, कुड़दान स्थापना, अन्य सामग्री / विविधये ग्राम पंचायत कार्यालय पर दिनांक से तक आमंत्रित को जाती हैं। जो दिनांक से खोली जायगी। निविदा को स्वीकृत / खरी / ग्राम पंचायत को होगा

सचिव
रूही धुरिया



बाजाज फाइनेंस लिमिटेड
 कर्पोरेट कार्यालय : सेक्टर वार्डटी पार्क बी-2 बिल्डिंग, 6वां तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र-411 014,
 शाखा कार्यालय : 14वां तल, अग्रवाल नेट्रो इन्फ्रास्ट्र, मेलाची चुपच पैसेर, वीथमपुर, नई दिल्ली-110084
 वित्तीय आलेखों का प्रतिगुणिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिक्रिती शिल प्रदर्शन अभियान, 2002 की धारा 13 (4) के तहत नया सूचना

अबबेहतावादी मैसर्स बाजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रतिक्रिती अधिकांश के रूप में एकादश निम्नलिखित सूचना कर्जदार(री) / सह-कर्जदार(री) को जारी कर रहा है, जो अपनी देयता का निवृत्त करने में असफल रहे हैं अर्थात् बाजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उनको सम्पत्ति के एजेंट में दिए गए आवस्य अर्ज(री) / अर्ज(री) के मूल्यान और उसपर चर्चदुआ क्रय एवं अन्य प्रभारों के प्रतिगणन में असफल रहे हैं और उसके परिणामस्वरूप क्रय अनावस्य और हो गए हैं। तदनुसार उनको वित्तीय आलेखों का प्रतिगुणिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिक्रिती शिल प्रदर्शन अभियान, 2002 की धारा 13 (4) और उनके नियमों के तहत सूचनाएं उनके अग्रिम आदेश पर, जारी की गई हैं। तथापि वे बिना सुपुर्देश/बिना तामील बचस प्राण हो चुकी हैं, अतः कर्जदार(री) / सह-कर्जदार(री) को इस प्रकारान्वय के मध्यम से सूचित किया जाता है कि वे उनके द्वारा सम्य सम पर प्राप्त की गए हुए सुविधाओं के तहत बचवा चिन्तों को भुगतान करें।

क्रय बचस प्राण/कर्जदार(री) / सह-कर्जदार(री) / गारंटी(री) का नाम एवं पता	प्रतिक्रिती/संकेत बचस/गारंटी की चाने वाली सम्पत्ति का बचा	नया सूचना दिनांक और चलि
क्याता : दिल्ली (सुरक्षण नंबर 4018HY66149696 एका 4018TY66149707)	मिना वॉलेंटानुसर गैर-सूचि नूनि सम्पत्ति के समी अस एवं लड अवासीय अवासेटी नंबर 0331, तृतीय तल, बलीक-डी (लटर-4) "मिनेड गेनोसला" सम्पत्ति तथा चारसमा 1279 वर्ग फीट, मिमिड शेकरल तवा 361 वर्ग फीट के साथ 1 कवर्ड कार पार्किंग, कम्प्युटरा सात, कमरेमें होबली, बेगुलुल साउथ लाउज, बेगुलुल, पूवः खुला स्वाम, पश्चिम सुपुर्देश नंबर डी-0332, उत्तर : शिखर सीडी, पश्चिम : खुला स्वाम।	19 जुलाई, 2023 रु. 62,49,730/- (साएर बासत लास चत्तमास हजार सात से तीस मात्र)

यह कवच नूनि के वकीलक तामील हेतु उतारा जा रहा है। उपरोक्त कर्जदारों तथा/अथवा सह-कर्जदार/गारंटीरों को सलाह दी जाती है कि वे बचवा राशि का भुगतान मशी बाजाज के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर कर दें, विलम्ब अत्रकल रहने पर वित्तीय आलेखों का प्रतिगुणिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिक्रिती शिल प्रदर्शन अभियान, 2002 की धारा 13 (4) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिक्रिती आलेख/संकेत सम्पत्ति का कवच लेने हेतु आगे अर्थात् (बाजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास उपरबक अन्य अधिकार उपचारों को प्रतिक्रिती प्रमाति किए बनेर) की जाएगी। उपरोक्त नामक चर्चियों को उपरिबर्णित सम्पत्तियों को हस्तान्तरित नहीं करने, तृतीय बच हिल सूचित नहीं करने की सलाह भी दी जाती है, विल पर कि बाजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्रभार है।

तिथि : 31-07-2023 स्थान :- दिल्ली/एनसत्ता प्रतिक्रिती बचसका बाजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

IMPORTANT

acceptance of advertising if its contents. The Indian be held responsible for such or damage incurred as a companies, associations or newspapers or Publications. and that readers make e sending any monies or ents with advertisers or ertisement in any manner

JTL INDUSTRIES LIMITED
 (Formerly known as JTL Infra Limited)
STEEL PIPES

जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 (पूर्व नाम जेटीएल इन्फ्रा लिमिटेड)
 पंजीकृत एवं कोर्पोरेट कार्यालय पर.सी.ओ. 19-18, सेक्टर 28-वी, चौडौड 160002, अरत
 सीआईएफ: L27106CH1991P1C011536
 दूरभाष नं.: +91 1272668000, ई-मेल contact@jtl.com, वेबसाइट: www.jtl.com

30 जून, 2023 को समाप्त पहली तिमाही के संकेतित अन-अंकेतित वित्तीय परिणामों का सार
 (प्रति शेयर अंकेत को छोड़कर रुपय लक्षां में)

विवरण	संकेतित			
	असात प्रिती	असात तिमा	असात तिमा	असात तिमा
30 जून, 2023 (अन-अंकेतित)	31 मार्च, 2023 (अंकेतित)	30 जून, 2022 (अन-अंकेतित)	31 मार्च, 2023 (अंकेतित)	
संरक्षण से कुल अय	50566.97	47309.24	37033.96	155485.63
असादर कर्तुओं और कर पूरु नाम	3390.33	5035.26	1587.23	12369.82
असादर कर्तुओं के बच कर पूरु नाम	3390.33	5035.26	1587.23	12261.61
असादर कर्तुओं और कर के बच कुल अय	2536.99	3664.12	1207.42	9012.78
कुल कावक अय	2536.99	3604.93	1207.42	9313.08
देय इन्फ्रिती सेवर सुंजी (सेक्टरमें 2 कर प्रीति)	1686.84	1686.84	1210.74	1686.84
अय इन्फ्रिती	-	39024.43	-	39024.43
अय प्री सेवर (2 कर प्रीति सेवर) (वर्षिक नहीं)				
का असादर	3.00	4.35	1.82	10.69
का लभुकर	2.61	3.77	1.68	9.28

30 जून, 2023 को समाप्त पहली तिमाही के अन-अंकेतित एकल वित्तीय परिणामों का सार

विवरण	असात प्रिती	असात तिमा	असात तिमा	असात तिमा
संरक्षण से कुल अय	50566.97	47157.82	37033.96	155334.01
कर पूरु नाम	3390.34	5034.78	1587.23	12261.61
कुल असादर और/वा असादर कर्तुओं के बच #)	2536.99	3664.75	1207.42	9012.41
अग्रि के बिग कुल कावक अय (कर के बचा)	2536.99	3604.56	1207.42	9312.71

नोट: उपरोक्त संकेत (सूचक) अय और अय प्रतीककरण अयवकालीन विधियन, 2016 के विधियन 33 के तहत सटीक एकरसेजों (सीएल, एनएल और एनएलईआई) के साथ संकेतित संकेत अन-अंकेतित संकेतित वित्तीय परिणामों के विवरण प्रथम का एक अग्रण है। अन-अंकेतित संकेतित और एकर वित्तीय परिणामों का पूरु प्रथम सेक्टर, एनएलईआई और एनएलईआई (सटीक एकरसेज) की वेबसाइटों www.bseindia.com, www.nseindia.com और www.mseil.in और कंपनी की वेबसाइट www.jtl.com पर उपलब्ध है।